

231279 - उसने शहर के लोगों का अनुकरण करते हुए 31 दिनों का रोज़ा रखा, फिर उसी दिन के दौरान उसने यात्रा किया और यात्रा की वजह से उसने रोज़ा तोड़ दिया, क्या उसके लिए क़ज़ा करना अनिवार्य है?

प्रश्न

जिसने रमज़ान के दौरान किसी दूसरे शहर की यात्रा की और उनके साथ रोज़ा पूरा किया, यहाँ तक कि उसने जो कुल रोज़ा रखा वह इकत्तीस दिन हो गया। इकत्तीसवें दिन उसने, अपने शहर के लोगों का पालन करते हुए रोज़ा रखा। फिर उस दिन के दौरान उसने यात्रा की और यात्रा की वजह से उसने रोज़ा तोड़ दिया। क्या उसके लिए रोज़ा क़ज़ा करना अनिवार्य है? और क्या उसके लिए रोज़ा तोड़ना अनिवार्य है यदि वह उदाहरण के तौर पर जुहर (दोपहर) के बाद अपने परिवार के शहर पहुँचा जबकि वे लोग रोज़े से नहीं थे क्योंकि वह उनके यहाँ ईद का दिन था?

विस्तृत उत्तर

उत्तर :

हर

प्रकार की

प्रशंसा और

गुणगान केवल

अल्लाह के लिए

योग्य है।

मैं ने यह सवाल

शेख अब्दुर्रहमान

अल बर्राक

हफिज़हुल्लाह

तआला के सामने

पेश किया।

तो उन्होंने उत्तर

दिया :

“हाँ,
उसके लिए
रोज़ा क़ज़ा
करना
अनिवार्य है, क्योंकि
इस दिन का
रोज़ा उसके
ऊपर अनिवार्य था
और उसने एक
उज़्र के कारण
रोज़ा तोड़
दिया था।

और यदि वह ऐसे शहर
में पहुँचे जहाँ
के लोग रोज़े
से न हों तो
उसके लिए उनके
साथ रोज़ा
तोड़ देना
अनिवार्य है,
क्योंकि उसका
हुक्म उस शहर
के लोगों का
हुक्म हैं
जिसमें वह
पहुँचा है।

लेकिन अगर
उसने फ़ज़्र (सुबह)
होने से पहले यात्रा

की है: तो उसके
लिए कुछ भी
अनिवार्य नहीं
है ; क्योंकि
फ़ज़्र उदय
होने से पहले उस
पर रोज़े का
हुक्म लागू
नहीं होगा।”
समाप्त हुआ।

तथा लाभ के लिए

देखें : (71203), (45545), (217122)।

और अल्लाह

तआला ही सबसे

अधिक ज्ञान

रखता है।